कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला (ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनसार पुत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ सी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

नोएडा-201318, उत्तरप्रदेश एक कवर्ड कार

पार्किंग बिअरींग नं.पीआर-एच-104 के साथ

उधार लेने वाले (लो) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले (लो) के ऋण खाते को कंपनी दूरा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवालो को अधिनयम की धारा 13(2)के अंतर्गत सचनाएं भी जारी क गई है।

उपर्युक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवन करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें, तथा शउल्को सहित ऊपर स्तंभ सी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने/ उनके पुण दायित्वोका निर्वहन करे. ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिगृहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप -धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार , '' कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए . सार्वजनिक निवदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की विक्री के लिए सुचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी वे अंदर सरक्षित आस्ति को मोचन करनें में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13 (2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियो में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमित के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबंति हैं।

> कृते इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड पाधिकत अधिकारी

> > T

TATA

12.07.2019 के अनुसार

	सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002									
	(कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना									
अनु.	कर्जदाता (ओं) का नाम	गिरवी संपत्ति	बकाया राशि							
क्र.	(7)	का विवरण (बी)	(रू.) (सी)							
1.	लोन अकाउंट नं. HHLNOD00237006 1. विपुल कुमार 2. अतुल कुमार गारंटर	यूनिट सं. एच-2006, 20वीं मंजिल, टॉवर/ ब्लॉक-एच, आरजी लकजरी होम्स, प्लॉट सं. जीएच-07ए, सेक्टर-16बी, ग्रेटर नोएडा, नोएडा -201318, उत्तर प्रदेश, एक कवर्ड कार पार्किंग सं. पीआर- एच- 2006 के साथ	रु. 43,78,309/-(रूपए तैंतालीस लाख अठहत्तर हजार तीन सौ नौ मात्र) 16.07.2019 के अनुसार							

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ सी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है। उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पनर्भगतान में लगातार चक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी दारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों के रूप में वगीकत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदुद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ सी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित . करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों , लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता' सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से

कृते इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेन्स लि. स्थान: बेंगलुरु/नोएडा प्राधिकत अधिकारी

टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड TATA STEEL BSL

स्थान:आगरा/नोएडा (उत्तरप्रदेश)

(पूर्ववर्ती भूषण स्टील लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालयः भूतल, भीरा कारपोरेट स्यूट, प्लाट नं. 1 व 2, ईश्वर नगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली–110065 फोनः 91-11-39194000, फैक्सः 91-11-41010050, ई-मेलः tsbsl@tatas वेबसाइटः www.tatasteelbsl.co.in, CIN : L74899DL1983PLC014942

शेयरधारकों हेतु नोटिस

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष (आईईपीएफ) में इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियमावली, 2016 यथासंशोधित के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार यह नोटिस प्रकाशित है।

नियमावली में भौतिक और इलैक्टोनिक रूप में धारित शेयरों जिनके संबंध में लगातार सात या अधिक वर्षों से भूगतान नहीं किया गया या शेयरधारक द्वारा दावा नहीं किया गया है, को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित आईईपीएफ डीमेट खाते में अंतरण के लिए प्रावधान

टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड (पूर्ववर्ती भूषण स्टील लिमिटेड) ('**कंपनी')** ने संबंधित शेयरधारकों जिनके लाभांश अदावित रहे हैं और जिनके शेयर अक्टबर, 2019 में आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरण के लिए संभावित हैं, को नियमावली के तहत उनके पंजीकृत पतों फ

ऐसे शेयरधारकों से आईईपीएफ डीमेट खाते में उनके शेयरों के अंतरण से बचने के लिए कंपनी या इसके रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट, ('आरटीए'), आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्रा. लि. को 26 अक्टूबर, 2019 तक आवेदन कर ऐसे लाभांश (ऑ) का दावा करने की सलाह दी जाती है। ऐसे शेयरधारकों और अंतरण के लिए देय शेयरों का पूरा विवरण कंपनी की वेबसाइट www.tatasteelbsl.co.ir पर अपलोड किया गया है।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि कृपया नोट करें यदि 26 अक्टूबर, 2019 तक ऐसे इक्विटी शेयरों जिनके लिए लगातार सात वर्षों से लामांश दावा नहीं किया गया, के शेयरधारक द्वारा लामांश का दावा नहीं किया गया तो शेयरधारकों को बिना किसी अन्य सूचना के समय—समय पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में आईईपीएफ डीमेट खाते में अंतरित किए जायेगे और अदावित लागांश / इस प्रकार अंतरित शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई देयता नहीं होगी।

भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले संबंधित शेयरधारकों और जिनके शेयर आईईपीएफ डीमेट खाते में अंतरित किए जाने हैं कृपया नोट करें कि कंपनी नियमावली के अनुसार आईईपीएफ डीमेट खाते में शेयरों के अंतरण उददेश्य के लिए संबंधित शेयरधारक ों द्वारा धारित मूल शेयर सर्टीफिकेट के बदले नये शेयर सर्टीफिकेट जारी किए जायेंगे। इसके बाद, मूल शेयर सर्टीफिकेट स्वतः निरस्त हो जायेंगे और अबेचनीय हो जायेंगे। साथ ही डीमेट रूप में शेयर धारक करने वाले शेयरधारक और जिनके शेयर आईईपीएफ डीमेट खाते में अंतरित किए जाने हैं वे कृपया नोट करें कि कंपनी इन शेयरों को डिपोजिटरी पार्टीसिपेंटों के माध्यम से आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमेट खाते में सीधे अंतरित किए जायेंगे।

शेयरधारक कृपया नोट करें कि वे अदावित लाभांश और आईईपीएफ डीमेट खाते में अंतरित शेयर इन प्रोद्भूत सभी हितलाभों यदि कोई हो, के साथ नियमावली के तहत प्रक्रिया का अनुसरण कर आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस दावा कर सकते हैं उपर्युक्त विषय में किसी प्रश्न के उत्तर के लिए शेयरधारक निम्नलिखित में किसी से भी संपर्क कर सकते हैं:

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय					
आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्रा. लि.	टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड					
बी—25 / 1, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज—।।,	पंजीकृत कार्यालयः भूतल, मीरा कारपोरेट स्यूट, प्लाट नं. 1 व 2,					
नई दिल्ली—110020	ईश्वर नगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली—110065					
फोनः 011—26387320, 21 फैक्सः 011—26387322	फोनः 91-11-39194000					
ईमेलः investor.services@rcmcdelhi.com	ई–ਸੇਕ: tsbsl@tatasteelbsl.co.in					

हिते टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेर हस्ता. /-निशा अनिल सेट

स्थानः नई दिल्ली कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

बिज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 31 जुलाई 2019 बुधवार

बम्बई स्थित बम्बई सिटी सिविल कोर्ट में सारांश मामला सं. 100633 ऑफ 2018 (दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के आर्डर XXXVII के अधीन)

अभियोग दायर करने की तिथि : 15.02.2018, अभियोग:स्वीकार करने की तिथि: 19.06.2018 दीवानी प्रक्रिया की संहिता O. XXXVII. नियम 2 के अधीन समन

कोन्डे नैस्ट (इंडिया) प्रा. लि., कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन गठित एक कंपनी कार्यालय का पता दूसरी मंजिल, दरबसाव हाउस, बल्लार्ड एस्टेट, शूरजी वल्लभदास मार्ग, मुम्बई-

सीतारे एक्जिम प्रा. लि., कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन गठित एक कंपनी कार्यालयं का पता (i) 21, भूतल, एम्पायर एस्टेट, सुल्तानपुर, एम. जी. रोड, दिल्ली, साऊथ दिल्ली-110 030 तथा (ii) एम्पायर प्लाजा, यूनिट सं. 204, दूसरी मंजिल, मेहरौली, गुड़गाँव रोड, सुल्तानपुर, नई दिल्ली 110030

सीतारे एक्जिम प्रा. लि. (ऊपर नामित प्रतिवादी)

चूंकि ऊपर नामित अभियोगी ने दिवानी प्रक्रिया, 1908 की संहिता के आर्डर XXXVII के नियम 2 के अधीन आप ऊपर नामित प्रतिवादियों के खिलाफ माननीय न्यायालय में मामला दायर किया है।

इसलिए अभियोगी ने निम्नलिखित प्रार्थना किया है:

(क) चूंकि, प्रतिवादी को 1 फरवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार रु. 3,97,111/- (रुपये तीन लाख सनतानवे हजार एक सौ ग्यारह मात्र) की रकम साथ में यहां दावा एक्जीबिट "डी" के . विवरण के अनुसार मुलधन रु. 3,29,040/- (रुपये तीन लाख उन्नतीस हजार चालीस मात्र) पर मामला दर्ज करने की तारीख से सम्पूर्ण भूगतान तथा वसूली की तारीख तक सालाना 21% की दर से आगे के ब्याज की रकम अभियोगी को भुगतान करने का आदेश दिया तथा फैसला सुनाया गया।

ख) मामले की लागत प्रदान किया जा सकता है।

. एतद्द्वारा आपको इसकी सेवा से दस दिनों के अंदर उपस्थित होने के लिए समन किया जाता है, ऐसा करने में विफल रहने पर इस दस दिनों की समाप्ति के उपरांत किसी भी समय अभियोगी रु. 3,97,111/- तथा माननीय न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले आदेश के अनुसार प्रार्थित एवं

लागतों के साथ ब्याज, यदि कोई है, पाने के हकदार हो जाएंगे। यदि आप एक उपस्थिति दर्ज करने का कारण बनते हैं, तो तत्पश्चात अभियोगी सुनवाई पर निर्णय के लिए आपको समन देंगे, जिस पर आप मामले का बचाव छोड़ने के लिए माननीय

न्यायालय से पछने का हकदार होंगे। हलफनामा द्वारा माननीय न्यायालय को संतुष्ट करने पर आप बचाव छोड़ने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं अथवा अन्यथा विशेषता के अनुसार मामले का बचाव कर सकते हैं अथवा आपको

मामले का बचाव करने की अनुमति देनी होगी। मेरे हस्ताक्षर तथा इस माननीय न्यायालय की महर द्वारा जारी

12 जुलाई, 2019 मैसर्स ठाकोर जरीवाला एंड एसोसिएट्स अभियोगी के अधिवक्ता,

116, फ्री प्रेस हाउस, 11वीं मंजिल 215 बैकवे रिक्लेमेशन-III नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400 021

कते रजिस्टार सिटी सिविल कोर्ट बम्बर्ड महरकर्त्ता दिनांक 12 जुलाई, 2019

@

EVONIK

Place: Gurugram Date : 30 July 2019

Quarter Ended Quarter Ender

INSILCO LIMITED

CIN: L34102UP1988PLC010141 POWER TO CREATE Regd. Office - A - 5, UPSIDC Industrial Estate, Bhartiagram, Gajraula, Distt. Amroha, U.P.-244223 Phone: 09837923893, Fax: (05924) 252348, Email id: insilco@evonik.com, Website: www.insilcoin Statement of Un-audited Financial Results for the quarter/ three months ended 30th June 2019 (Rs. in Lakhs)

Particulars	30th June 2019	30 th June 2018	
Total income from operations (net)	2661	2794	
Net Profit / (Loss) for the period	86	(131)	
(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)			
Net Profit / (Loss) for the period before tax	86	(131)	
(after Exceptional and/or Extraordinary items#)			
Net Profit / (Loss) for the period after tax	83	(125)	
(after Exceptional and/or Extraordinary items#)			
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for	74	(128)	
the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]			
Equity Share Capital	6,272	6,272	
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited	3,22	22	
Balance Sheet of the previous year			
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued			
operations) -			
(a) Basic	0.13	(0.20)	
(b) Diluted	0.13	(0.20)	

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results along with Limited Review Report are available on the website of Stoc Exchange (www.bseindia.com) and the Company (www.insilcoindia.com).

Effective April 1, 2019, the Company has adopted Ind AS 116 "Leases". The effect on adoption of Ind AS 116 was insignificant on the financial results and Earning per Share (EPS) for the guarter ended June 30, 2019 The Company does not have any Exceptional and Extraordinary Items to report in above periods. For Insilco Limtie

Brijesh Aror Place : Noida, Uttar Pradesh Dated : July 30, 2019 Managing Director DIN: 00952523

सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ

सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना								
अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति का विवरण (बी)	बकाया राशि (रू.) (सी)					
1	कर्ज खाता क्र. HHLNOD00379854 1. अभिराव कुमार मौर्या 2. प्रेम लत्ता 3. राम मुर्ती मौर्या गॅरेन्टर 4. सुलक्षणा गॅरेन्टर	अपार्टमेंट नं. 2906, अट्टाईसवी मंजिल, ब्लॉक -1डी स्कर्दी ग्रीन्स, लेन्डक्राफ्टस, गालफ्लोंक्स, एनएच-24, गाज़ियाबाद-201010, उत्तरप्रदेश बेसमेंट में एक कवर्ड कार पार्किंग जगह के साथ	रू.33,92,762/- (रूपये तैंतीस लाख बयानवे हजार सात सौ बासठ मात्र) 12.07.2019 के अनुसार					

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला (ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ सी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले (लो) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले (लो) के ऋण खाते को कंपनी दूरा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवालो को अधिनियम की धारा 13(2)के अंतर्गत

. उपर्युक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदह्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवन करती है कि .वे इस सुचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें, तथा शउल्को सहित ऊपर स्तंभ सी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने/ उनके पूर्ण दायित्वोका निर्वहन करे, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप -धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार , '' कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, . सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की विक्री के लिए सुचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के अंदर सुरक्षित आस्ति को मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता " सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13 (2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तिये

में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबंति है।

कते इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड स्थान :गाजियाबाद/ अल्लाहाबाद प्राधिकृत अधिकारी

mycem

HeidelbergCement India Limited CIN: L26942HR1958FLC042301

Office: 9th Floor, Infinity Tower - C, DLF Cyber City Phase II, Gurugram, Haryana - 122 002 Ph.: 0124 - 4503700, Fax: 0124 - 4147698

Email Id: investors.mcl@mycem.in; Website: www.mycemco.com

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30.06.2019

SI. No.	Particulars	3 months ended 30.06.2019	31.03.2019 (Refer note 3)	Corresponding 3 months ended 30.06.2018	Previous Year ended 31.03.2019
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Revenue from operations	E 004 4	- 040 -	5 000 5	04 004 4
	a. Sales/Income from operations	5,824.4	5,346.5	5,368.5	21,094.4
	b. Other operating revenue	67.9	87.4	33.6	239.1
.	Total Revenue from operations	5,892.3	5,433.9	5,402.1	21,333.5
2.	Other income	118.3	114.8	69.4	348.2
3.	Total income (1+2)	6,010.6	5,548.7	5,471.5	21,681.7
1.	Expenses	4.050.5	4.055.0	204.0	0.045.0
	a.Cost of materials consumed	1,056.5	1,055.9	984.3	3,915.2
	b. Changes in inventories of finished goods	73.0	(303.5)	96.1	(51.8)
	and work-in-progress c. Employee benefits expense	314.5	356.0	305.5	1,239.0
	d. Finance costs	198.2	160.2	219.2	747.8
	e.Depreciation and amortisation expense	278.6 1,215.2	254.4	254.9	1,017.7 5,049.3
	f. Power and fuel	,	1,466.6	1,180.4	
	g. Freight and forwarding expense	796.9	826.3	828.2	3,079.3
	h.Other expenses	859.6	783.5	814.2	3,269.1
	Total expenses (a to h)	4,792.5	4,599.4	4,682.8	18,265.6
	Profit before exceptional items & tax (3-4)	1,218.1	949.3	788.7	3,416.1
	Exceptional items	4 040 4	040.2	700 7	2 446 4
	Profit/(Loss) before tax (5-6)	1,218.1	949.3	788.7	3,416.1
	Tax expense Current tax	262.8	200.0	170.2	739.9
	Deferred tax	165.0	140.3	107.3	469.6
			100000000000000000000000000000000000000		
	Net Profit/(Loss) for the period (7-8) Other comprehensive income	790.3	609.0	511.2	2,206.6
٧.	i Items that will not be reclassified to		(22.7)		(2.0)
	Profit & Loss	-	(22.7)	-	(3.9)
	ii Income tax relating to items that will not be		7.9		1.3
	reclassified to Profit & Loss	-	7.9	-	1.3
	Total Other comprehensive income				
	(net of tax)		(14.8)		(2.6)
4	Total Comprehensive Income after tax (9+10)	790.3	594.2	511.2	2,204.0
	Paid-up equity share capital	2,266.2	2,266.2	2,266.2	2,266.2
۷,	(Face Value is ₹10 per share)	2,200.2	2,266.2	2,200.2	2,200.2
,					0.445.7
	Other Equity Earnings per share of ₹10 each - Not	-	_	-	9,445.7
+	annualised				
	annualised (a) Basic (in ₹)	3.49	2.69	2.26	9.74
		3.49	2.69	2.26	9.74
	(b) Diluted (in ₹)	3.49	2.69	2.20	9.74

1) The Company operates in a single segment i.e. manufacture and sale of Cement

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 30 July 2019.
 The figures for the quarter ended 31 March 2019 are the balancing figures between audited figures in respect of full

financial year and the unaudited published year-to-date figures upto 31 December 2018 which were subjected to 4) The Company has adopted Ind AS 116 "Leases" effective 01 April, 2019, as notified by the Ministry of Corporate

Affairs in the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2019, using modified retrospective

method. The adoption of this standard did not have any material impact on the profit of the current quarter.

5) Figures of the previous year / periods have been reclassified / regrouped / restated, wherever necessary.

For and on behalf of the Board of Directors (Jamshed Naval Cooper)

Managing Directo DIN:01527371

टालब्रोस ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स लिमिटेड

सीआईएन: L29199HR1956PLC033107 1, दिल्ली मथुरा रोड, डाकघर अमर नगर, फरीदाबा ; ई–मेल: seema_narang@talbros.com; वेबर शेयरधारकों के लिए सूचना

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आईईपीएफ) खाते में शेयरों के अंतरण के लिए (निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसरण में)

कम्पनी के शेयरधारकों को एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 (''नियम'' के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी को उन शेयरों को केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित आईईपीएफ खाते में अंतरित करना अनिवार्य है जिनके लिए निरंतर सात वर्षों की अवधि से लाभांश का भुगतान नहीं लिया गया है या दावा नहीं किया गया है। कथित शेयर उन शेयरधारकों से संबंधित हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2011–12 और उसके बाद के छह वर्षों के लिए लाभांश का दावा नहीं किया है।

ऐसे शेयरधारक जिन्होने निरंतर सात वर्षों से अपने लाभांश का भुगतान नहीं लिया है और जिनके शेयर आईईपीएफ खाते में अंतरित किये जाने है, उनकी सूची कम्पनी की वेबसाइट <u>www.talbros.com</u> पर उपलब्ध है।

कम्पनी ने 12 जून, 2019 को संबंधित शेयरधारकों को अन्य बातों के साथ-साथ आईईपीएफ खाते में अंतरित किये जाने वाले उनके शेयरों के विवरणों के साथ व्यक्तिगत सचना उनके पंजीकत पते पर भेज दी है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने अदावाकृत लाभांश राश का दावा करने के लिए कथित पत्राचार में वर्णित अपेक्षित दस्तावेजों को कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास

आगे एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि शेयरधारकों से वैध दावा प्राप्त नहीं होने पर कम्पनी कथित नियमों की आवश्यकताओं के अनुपालन में आगे बिना कोई सूचना दिये ऐसे शेयरों को आईईपीएफ खाते में अंतरित कर देगी।

कृपया नोट करें कि कथित नियमों के अनुसरण में अदावाकृत लाभांश राशि और आईईपीएफ को अंतरित किये गये शेयरों के संबंध में कम्पनी के पास कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, ऐसे अंतरण पर शेयरधारक आइईपीएफ प्राधिकरण के पास लाभांश के साथ अंतरित किये गये शेयर का दावा कर सकते हैं जिसका विवरण <u>www.iepf.gov.in</u> पर उपलब्ध है।

इस विषय पर किसी भी जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए शेयरधारक कम्पनी को seema_narang@talbros.com or kapil_gupta@talbros.com पर लिख सकते हैं अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट – कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नम्बर 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट गाचीबावली, हैदराबाद-500 032, फोन नं. 91 040 67161524 या ई-मेल: <u>rajeev.kr@karvy.com</u> से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते टालब्रोस ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स लिमिटेड

स्थान : फरीदाबाद दिनांक : 30 जलाई. 2019

सीमा नारंग कम्पनी सचिव

हस्ता./-



सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के नियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कपनी के निदेशक मंडल की बैठक 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर चर्चा व अनुमोदन के लिए गुरुवार 08 अगस्त, 2019 को आयोजित की जाएगी।

मशीनो प्लास्टिस्क लि. के लिए सजीव जिंदल दिनाकः 29.07.2019 स्थानः गुरुग्राम अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक

ा एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड CIN: L99999HR1994PLC034146

CIN: Lअअअअगार । अजन १ ८०० ज । नज पंजी. कार्या. : प्लॉट सं. ३१, एशलॉन इंस्टिट्यूशनत एरिया, सेक्टर–32, गुरूग्राम–122001, हरियाणा फोन : 0124-4675500, फैक्स : 0124-4370985 ई-मेलः corporate@hbestate.com वेबसाइटः www.hbestate.com

सूचना

भारतीय पतिभति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 वं विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशव मंडल की एक बैठक **शनिवार, 10 अगस्त, 2019** क आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य के साथ, 30 जून 2019 को समाप्त प्रथम तिमाही हेतु कम्पनी वे अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम (पृथक्कृत एवं समेकित

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.hbestate.com पर तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेन्ज (बीएसई लिमिटेड) क् विसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

> कृते एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेर हस्ता./

> > M.No.: ACS-3255

विचारित तथा अनुमोदित किए जाएंगे। राधिका खुराना (कम्पनी सचिव)

ਰਿथਿ: 30.07.2019

स्थान : गुरुग्राम



R SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L74899DL1993PLC053579 Registered Office: GF-1-A, 6, Devika Tower, Nehru Place, New Delhi- 110019

Tel: +91 120 4303500; Fax: +91 120 4082699, Website: www.rsystems.com; Email: rsil@rsystems.com

Extract of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and six months ended June 30, 2019

(Rs. in million, except per share data)

Particulars		Standalone Financial Results (refer Note 3)						Consolidated Financial Results (refer Note 4)					
	Three months ended			Six months ended Year Ended		Three months ended			Six months ended		Year Ended		
	30.06.2019	31.03.2019	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019	31.03.2019	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2018	31.12.2018	
(Refer Notes)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
Revenue from operations	997.00	931.11	748.47	1,928.11	1,440.38	3,172.13	2,028.11	1,962.99	1,688.37	3,991.10	3,210.40	6,998.89	
Net profit before tax for the period/year*	156.49	176.20	34.46	332.69	93.74	405.44	162.45	188.62	93.00	351.07	148.07	626.82	
Net profit after tax for the period/year*	114.16	118.20	35.51	232.36	82.82	310.14	116.05	123.82	86.62	239.87	125.13	510.45	
Total comprehensive income for the period/year [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	110.78	114.04	38.64	224.82	85.51	309.64	116.66	97.84	118.41	214.50	195.84	604.00	
Paid - up equity share capital (Face value Re. 1/- each)	119.60	123.25	123.25	119.60	123.25	123.25	119.60	123.25	123.25	119.60	123.25	123.25	
Reserves (excluding Revaluation Reserves) as at December 31, 2018						2,572.28						3,105.78	
Earnings per share (Face value of Re. 1/- each) (not annualised)*													
Basic	0.95	0.96	0.29	1.91	0.67	2.52	0.97	1.00	0.70	1.97	1.02	4.14	
Diluted	0.95	0.96	0.29	1.91	0.67	2.52	0.97	1.00	0.70	1.97	1.02	4.14	

The Company does not have any extraordinary item to report for the above periods.

Notes:

Place: NOIDA

Date : July 30, 2019

1. The financial results for the guarter and six months ended June 30, 2019 were reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors at their meetings held on July 30, 2019.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by Circular No. CIR/CFD/

FAC/62/2016 dated July 05, 2016. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com, www.nseindia.com and Company's website at www.rsystems.com. An audit has been completed by the Statutory Auditors for the quarter and six months ended June 30, 2019 and June 30, 2018, quarter ended March 31, 2019 and year ended December 31, 2018. The statutory auditors have expressed an unmodified

audit opinion on the aforesaid results. The Limited Review as required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been completed by the Statutory Auditor for the guarter and six months ended June 30, 2019 and June 30, 2018, quarter ended March 31, 2019 and audit for the year ended December 31, 2018 and expressed an unmodified opinion on the aforesaid results.

> For and on behalf of the Board Sd/ Avirag Jain **Director & Chief Technology Officer**

DIN: 00004801

Abbott India Limited

CIN: L24239MH1944PLC007330

Regd Off: 3, Corporate Park, Sion-Trombay Road, Mumbai - 400 071 Tel No.: 022-6797 8888/3816 2000 Fax No.: 022-6797 8727/3816 2400 Email Id: investorrelations.india@abbott.com Website: www.abbott.co.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 (1) (a) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, August 8, 2019 interalia, to consider and approve the text of Unaudited Financial Results of the Company for the first guarter ended on June 30, 2019.

The copy of this intimation shall also be available on the website of the Company at www.abbott.co.in and on the website of the BSE Limited www.bseindia.com.

Abbott India Limited

Mumbai July 31, 2019

Krupa Anandpara Company Secretary Membership No.: ACS16536

□ Abbott

HEG LIMITED

Regd. Off.: Mandideep (Near Bhopal) Distt. Raisen-462046, (M.P.) Tel.: 07480-233524, 233525; Fax: 07480-233522 Corp. Off.: Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida-201301 (U.P.) Tel.: 0120-4390300 (EPABX); Fax: 0120-4277841

Website: www.hegltd.com; E-mail: heg.investor@lnjbhilwara.com; CIN: L23109MP1972PLC008290 NOTICE

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 14th August. 2019 at 1:15 P.M. at the Corporate Office of the Company at Bhilwara Towers - 1, A-12, Sector -1, Noida - 201301, to consider and approve inter-alia the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter Ended 30th June, 2019.

As per the Company's Code of Conduct for Regulating, Monitoring & Reporting Trading by Insiders, the trading window of the Company for the purpose of trading in the securities of the Company by its Designated persons and their immediate relatives shall remain closed from the end of the every quarter till 48 (forty eight) hours after the conclusion of the Meeting of the Board of Directors for the purpose of consideration and approval of financial results. Accordingly, the period of closure of trading window for dealing in Shares of the Company had already been in operation.

Please note that the re-opening of Trading window for dealing in the Shares of the Company will be effective from 17th August, 2019.

> for **HEG LIMITED** Sd/

Date: 30th July, 2019 Place: Noida (U.P.)

(Vivek Chaudhary) Company Secretary

This Notice may also be accessed on the Company's website: www.hegltd.com and on www.nseindia.com, www.bseindia.com.

S TALBROS AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED CIN: L29199HR1956PLC033107 Regd Office: 14/1, Delhi Mathura Road, P.O. Amar Nagar,Faridabad - 121003, Haryan Tel: 0129-2251482; E-mail: seema_nara@falbros.com; Website: www.talbros.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

For transfer of shares to the Investor Education and Protection Fund

(IEPF) Account (In accordance with provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016) NOTICE is hereby given to the shareholders of the Company pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules. 2016 ("the Rules") that the Company is required to transfe the shares, in respect of which dividend remains unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years, to the IEPF Account established by the Central Government. The said shares correspond to the shareholders who have not claimed dividend for the F.Y. 2011-12 and following six years thereafter A list of such shareholders, who have not encashed their dividends for sever consecutive years and whose shares are, therefore, liable to be transferred to the IEPF Account, is available on the website of the Company www.talbros.com The Company has sent individual communication dated 12th June, 2019 to the concerned shareholders at their registered addresses, inter alia, providing

communication to the Company's Registrar and Share Transfer Agent to claim the unclaimed dividend amount(s). Notice is further hereby given that in the absence of receipt of a valid claim by the shareholder, the Company would be transferring the said shares to IEPF ccount without further notice in accordance with the requirement of said Rules Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules Further, upon such transfer, shareholders can claim the transferred shares

the details of their shares liable to be transferred to IEPF Account. Shareholders

are requested to forward the requisite documents as mentioned in said

along with dividends from the IEPF Authority, for which details are available a www.iepf.gov.in For any information/clarifications on this matter, concerned shareholders may write to the Company at seema_narang@talbros.com or kapil_gupta@talbros.com or contact Registrar and Share Transfer Agent of the Company - Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot Number 31 & 32, Financial District Gachibowli, Hyderabad 500 032; Phone No.

91 040 67161524; Email id: rajeev.kr@karvy.com. For Talbros Automotive Components Limited

Place: Faridabad Date: 30th July, 2019

Place : Jalandhar

Date: 29th July, 2019

Seema Narang Company Secretary

GNA

CIN: 1 29130PB1993PI C013684 Read. Office: GNA HOUSE, 1-C Chhoti Baradari Part – II. Opposite Medical College Garha Road Jalandhar 144001. Tel No.: +91-181-4630477, Fax: +91-181-4630477 E-mail: gjain@gnagroup.com; Website: www.gnagroup.com,

NOTICE of the 26th Annual General Meeting – Record Date and Remote E-voting

Notice is hereby given that 26th Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of GNA Axles Limited will be held on Friday 23rd August 2019 at 12:30 PM at Hotel Country Inn and Suites GT Road Jalandhar - 144001 to transact the business as set out in the notice of the meeting dated July 12, 2019 convening the said meeting

The Company has completed the dispatch of the notice dated 12th July 2019 to the eligible members of the Company alongwith the Proxy Form and Attendance Slip in respect of the 26th AGM on 29th July 2019. The AGM Notice had been sent through email to members whose email ID's are registered with the Depository Participants and through physical mode to those members whose email ID's are not registered with the Company Depository Participants. Members who do not receive the Annual Report may download the same from the Company's website at www.gnagroup.com.

In Compliance of the Provisions of section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the shareholders are provided with the facility to vote electronically from the place other than the venue of AGM on the Resolutions set forth in the Notice of the AGM for which the Company has engaged the Services of M/s Linkintime India Private Limited to provide E-Voting facility for voting to the Members of the Company to cast their vote

Members may note that the E-voting shall commence on 20th August 2019 (9:00 AM) and shall end on 22nd August 2019 (5:00 PM). During this period the shareholder of the Company holding shares either in Physical or dematerialised form, as on cut off date 16th August 2019, may cast their vote electronically. In case the shareholders have any queries or issues regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or Call linkintime at: Tel: 022 - 49186000.

The Company has fixed 16th August, 2019 as the record date for the purpose of Annual General Meeting and Dividend. The Company has fixed August 16 2019 as cut off date to avail the facility of evoting. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut off date shall be entitled to avail the facility of Evoting or voting at the AGM through Ballot paper. The facility of voting by ballot paper shall be made available at the AGM and members attending the AGM who have not casted their vote electronically shall be eligible to vote at the AGM. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote E-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting

By order of the Board of Director For G N A Axles Limited Gourav Jair **Company Secretary** This is only an advertisement for information purpose and not an offer document. Not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning issigned to them in the Letter of Offer dated July 16, 2019 filed with the stock exchange, namely BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India, ("SEBI"), on July 26, 2019 (the "Letter of Offer" or "LOF"



PACIFIC INDUSTRIES LIMITED

Regd Office: Survey No. 13, National Highway 48, Kempalinganahalli Village, Nelamangala Taluk, Bangalore (R) 562123 Karnataka Corporate Office: Village Sapetia, Brahmano Ka Guda, Bedla, Udaipur 313004, Rajasthar

Tel: +91-294-2440196/2440388/2440933/2440934; Fax:+91-294-2440780 (Udaipur) Tel: 080 7723004 / 7725974; Fax: 080 7723005; (Bangalore)

E-mail: pilnorth@pacificgranites.com; pacificind@rediffmail.com; pacificinvestor@rediffmail.com Website: www.pacificindustriesltd.com

CIN: L14101KA1989PLC062041,
Contact Person: Mr. Sachin Shah, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTER OF THE COMPANY: MR. JAGDISH PRASAD AGARWAL, MRS. GEETA DEVI AGARWAL AND MR. KAPIL AGARWAL

> FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF PACIFIC INDUSTRIES LIMITED ONLY ("THE COMPANY" OR "OUR COMPANY" OR "ISSUER")

ISSUE OF 20,94,825 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹ 10 EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 119 PER EQUITY SHARE (INCLUDING PREMIUM OF ₹ 109 PER EQUITY SHARE) ("RIGHTS EQUITY SHARE") FOR AN AMOUNT AGGREGATING TO ₹ 24,92,84,175 (RUPEES TWENTY FOUR CRORE NINETY TWO LAKHS EIGHTY FOUR THOUSAND ONE HUNDRED SEVENTY FIVE) ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF PACIFIC INDUSTRIES LIMITED ("THE COMPANY" OR THE "ISSUER") IN THE RATIO OF 155 EQUITY SHARE FOR EVERY 100 FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) (I.E., 155:100) HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON JULY 26, 2019 (THE "ISSUE").

ISUSE PROGRAMME

ISSUE OPENS ON: MONDAY, **AUGUST 5, 2019**

LAST DATE FOR REQUEST FOR **SPLIT APPLICATION FORMS:** MONDAY, AUGUST 12, 2019

ISSUE CLOSES ON: MONDAY, **AUGUST 19. 2019**

ASBA

Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!!

*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, Investors can avail the same. For further details, check section on ASBA below.

PLEASE NOT THAT IN ACCORDANCE WITH THE SEBI CIRCULAR CIR/CFD/DIL/1/2011 DATED APRIL 29, 2011, ALL QIBs, NON-INSTITUTIONAL INVESTORS AND NON-RETAIL INDIVIDUAL INVESTORS COMPLYING WITH THE ELIGIBILITY CONDITIONS PRESCRIBED UNDER THE SEBI CIRCULAR NO. SEBI/CFD/DIL/ASBA/1/2009/30/12 DATED DECEMBER 30, 2009 MUST MANDATORILY INVEST THOURING THE ASBA PROCESS. APPLICANTS THAT ARE QIBS, NON-INSTITUTIONAL INVESTORS AND NON-RETAIL INDIVIDUAL INVESTORS WHOSE APPLICATION MONY EXCEEDS ₹ 2,00,000 CAN PARTICIPATE IN THE ISSUE ONLY THROUGH THE ASBA PROCESS. THE INVESTORS WHO ARE (I) NOT QIBS; (II) NOT NON-INSTITUTIONAL INVESTORS; OR (III) INVESTORS WHOSE APPLICATION AMOUNT IS NOT MORE THAN ₹ 2,00,000, CAN PARTICIPATE IN THE ISSUE EITHER THROUGH THE ASBA PROCESS OR THE NON ASBA PROCES. ASBA INVESTORS SHOULD CAREFULLY READ THE PROVISIONS APPLICABLE TO SUCH APPLICATIONS BEFORE MAKING THEIR APPPLICATION THROUGH THE ASBA PROCESS. PLEASE SEE THE HEADING "PROCEDURE FOR APPLICATION THROUGH THE ASBA PROCESS"ON PAGE 214 UNDER SECTION TITILED "TERMS OF THE ISSUE" OF THE LETTER OF OFFER. ALL RETAIL INVESTORS ARE ENCOURAGED TO MAKE USE OF ASBA FACILITY WHEREVER SUCH FACILITY IS AVAILABLE. ASBA APPLICANT(S) SHALL MEAN AN APLLICANT WHO: I) HOLDS THE QUITY SHARES IN DEMATERIALISED FORM AS ON THE RECORD DATE AND HAS APPLIED TOWARDS HIS/HER RIGHTS ENTITLEMENTS OR ADDITIONÀL EQUITY SHARES IN THE ISSUE IN DEMATERIALISED FORM; II) HAS NOT RENOUNCED HIS/HER RIGHTS ENTITLEMENTS IN FULL OR IN PART; III) IS NOT A RENOUCESS; AND IV) APPLIES THROUGH A BANK ACCONT MAINTANED WITH ONE OF THE SCSBs. SUBJECT TO SCSBs COMPLYING WITH THE REQUIREMENT OF SEBI CIRCULAR NO. CIR/CFD/DIL/13/2012 DATED SEPTEMBER 25, 2012 WITHIN THE PERIOD STIPULATED THEREIN, ASBA APPLICATIONS MAY BE SUBMITTED AT ALL BRANCHES OF THE SCSBs.

Further, in terms of the SEBI Circular CIR/CFD/DIL/1/2013 dated January 2, 2013, it is clarified that for making applications by banks on their own account using ASBA facility, SCSBs should have as separate account in their own name with any other SEBI registered SCSB(s). Such account shall be used solely for the purpose of making application in the Issue and clear demarcated funds should be available in such account for ASBA applications. SCSBs applying in the Issue using the ASBA facility shall be responsible for ensuring that they have a separate account in their own name with any other SCSB having clear demarcated funds for applying in the Issue and that such separate account shall be used as the ASBA account for the application, for ensuring compliance with the applicable regulations.

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLCOKED AMOUNT (ASBA): Investors may apply through the ASBA process subject to the compliance of condition for being an ASBA Investor. The ASBA Investor is required to fill the CAF and submit the same to the SCSB. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in the CAF. On allotment, the amount will be unblocked and the account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of Equity Shares. Hence, there will be no need of refunds. For more details on the ASBA process, please refer to the details given in the ALOF and also please refer "Procedure for Application through the ASBA Process" on page 214 under the section entitled "Terms of the Issue" of the Letter of Offer.

ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS APPLYING UNDER THE ASBA PROCESS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY UNDER THE ASBA PROCESS CAN BE ALLOTTED ONLY IN DEMATERIALIZED FORM AND TO THE SAME DEPOSITORY ACCOUNT IN WHICH THE EQUITY SHARE ARE HELD BY SUCH APPLICANT ON RECORD DATE.

DISPATCH OF ABRIDGED LETTER OF OFFER ("ALOF") AND COMPOSITE APPLICATION FORM ("CAF"): The dispatch of the CAF along with ALOF has been completed by the Registrar to the Issue, viz. Link Intime India Private Limited through Speed Post on July 30, 2019 to the Eligible Equity Shareholders on the record date (i.e. July 26, 2019) who have provided an Indian address to our Company. The same can also be downloaded from ompany's website: www.pacificindustriesltd.com

in case of non-ASBA investors, the CAF duly completed together with the amount payable on application must be deposited with the collecting banks indicated on the reverse of the CAF, and not with the Lead Managers before he close of banking hours on or before the Issue Closing Date i.e., August 19, 2019. A separate cheque or bank draft must accompany the CAF. Eligible Equity Shareholders/Investors (including Non-resident Shareholders Investors applying on non-repatriation basis) residing at places other than the cities where the branches of Escrow Collection Banks have been authorised by the Company for collecting applications should send their completed CAF by registered post/speed post to the Registrar to the Issue, Link Intime India Private Limited along with Demand Draft (net of bank and postal charges) payable at Mumbai in favour of "Pacific Industries Rights Issue-R", as the case may be, crossed "A/c Payee only" so that the same are received on or before the Issue Closing Date i.e. August 19, 2019. In case of Non-resident Shareholders/Investors applying on a repatriation basis, the Demand Drafts (net of bank and postal charges) should be drawn in favour of "Pacific Industries Rights Issue-NR", as the case may be, crossed "A/c Payee only" payable at Mumbai. Such application sent to anyone other than Registrar to the issue is liable to be rejected. If any portion of the CAF is/are detached or separated, such application is liable to be rejected. In case of ASBA investors, the CAF shall be submitted to the Designated Branch of the SCSB before the close of the banking hours on or before the Issue Closing Date.

AVAILABILITY OF DUPLICATE CAF: In case the original CAF is not received, or is misplaced by the Eligible Equity Shareholder, the Registrar will issue a duplicated CAF on the request of the Investor who should furnish the registered folio number or DP and Client ID number and his/her full name and Indian address to the Registrar. Please note that the request for duplicate CAF should reach the Registrar at least seven days prior to the Issue Closing Date. Please note that those who are making the application in the duplicate form should not utilize the original CAF for any purpose including renunciation, even if it is received or found, as the case may be, subsequently. If the investor violates such requirements, he/she shall face the risk of rejection of either original CAF or both the applications. Our Company or the Registrar to the Issue or the Lead Managers will not be responsible for postal delays or loss of duplicated CAF in transit, if any

APPLICATION ON PLAIN PAPER by ASBA Investors: An Equity Shareholder who has neither received the original CAF nor is in a position to obtain the duplicate CAF and who is applying under the ASBA Process may make an application to subscribe to the Issue on plain paper. The Equity Shareholders can make an application on plain paper giving necessary details as given below. The envelope should be superscribed "Pacific Industries Limited-Rights Issue". The application on plain paper, duly signed by the Investors including joint holders, in the same order as per the specimen recorded with our Company, must reach the SCSBs before the Issue Closing Date i.e. Monday, August 19, 2019 and should contain the following particulars: • Name of Issuer, being Pacific Industries Limited; •Name and address of the Equity Shareholder including joint holders; •Registered Folio Number/DP and Client ID No.; Number of equity shares held as on Record Date; Number of Equity Shares entitled to; Number of Equity Shares applied for; Number of additional Equity Shares applied for, if any; Total number of Equity Shares applied for; • Total amount to be blocked at the rate of ₹ 119 per Equity Share; and • Except for application on behalf of the Central or State Government and the officials appointed by the courts, PAN number of the Investor and or each Investor in case of joint names, irrespective of the total value of the Equity Shares applied for pursuant to the Issue. •Details of the ASBA Account such as the account number, name, address and branch of the relevant SCSB; •In case of non-resident investors, details of the NRE/FCNR/NRO account such as the account number, name, address and branch of the relevant SCSB with which the account is maintained; Additionally, all such applicants are deemed to have accepted the undertaking on page 217 of the Letter of Offer.

APPLICATION ON PLAIN PAPER by NON-ASBA Investors: An Equity Shareholder who has neither received the original CAF nor is in a position to obtain the duplicate CAF may make an application to subscribe to the Issue on plain paper, along with demand draft, net of bank and postal charges payable at Mumbai which should be drawn in favour of the "Pacific Industries Limited Rights Issue-R"in case of the resident shareholders and nonresident shareholders applying on non-repatriable basis and in favour of the "Pacific Industries Limited Issue-NR" in case of the non-resident shareholders applying on repatriable basis and send the same by registered/speed post directly to the Registrar to the Issue so as to reach Registrar to the Issue on or before the Issue Closing Date. The Equity Shareholders can make an application on plain paper giving necessary details as given below. The envelope should be superscribed "Pacific Industries Limited -Rights Issue". The application on plain paper, duly signed by the Investors including joint holders, in the same order as per the specimen recorded with our Company, must reach the office of the Registrar to the Issue before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:

Name of Issuer, being Pacific Industries Limited; Name and address of the Equity Shareholder including joint holders; Registered Folio Number/DP and Client ID No.; Number of equity shares held as on Record Date; Number of Equity Shares entitled to; •Number of Equity Shares applied for; •Number of additional Equity Shares applied for, if any; •Total number of Equity Shares applied for; •Total amount paid at the rate of ₹ 119 per Equity Share; •Particulars of cheque/draft •Saving/Current Account Number and name and of the bank where the Equity Shareholder will be depositing the refund order. In case of Equity Shares allotted in demat form, the bank accoun details will be obtained from the information available with the Depositories; Except for application on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN number of he Investor and for each Investor in case of joint names, irrespective of the total value of the Equity Shares applied for pursuant to the Issue. •Share certificate numbers and distinctive numbers of equity shares, if held in physica orm; •Allotment option preferred – physical or demat form, if held in physical form; •Signature of the Equity Shareholders to appear in the same sequence and order as they appear in our records or the Depositories records •In case of Non Resident Equity Shareholders, NRE/FCNR/NRO account number, name and address of the bank and branch; •If payment is made by a draft purchase from an NRE/FCNR/NRO account number, as the case may pe, an Account debit certificate from the bank issuing the draft, confirming that the draft has been issued by debiting NRE/FCNR/NRO account; and •Additionally, all such applicants are deemed to have accepted the undertaking

IF AN APPLICANT MAKES AN APPLICATION IN MORE THAN ONE MODE I.E., ON CAF AND ON THE PLAIN PAPER, BOTH APPLICATIONS SHALL BE LIABLE TO BE REJECTED.

Last Date for Application: The last date for submission of the duly filled in CAF is August 19, 2019. The Board or any committee thereof may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).

If the CAF together with the amount payable is either (i) not blocked with SCSB; or (ii) not received by the Banker to the Issue or the Registrar on or before the close of banking hours on the aforesaid last dated or such date as nay be extended by the Board or the Committee of Directors, the invitation to offer contained in this Letter of Offer shall be deemed to have been declined and the Board or the Committee of Directors shall be at liberty to dispose of the Equity Shares hereby offered, as provided under "Terms of the Issue – Basis of Allotment" on page 222 of the Letter of Offer. The entitlement for Fully Paid Shares and Partly Paid Shares will be kept in abeyance by our Company, if required under applicable law

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARE CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

LISTING: The existing Equity Shares are listed on the RSE Limited ("RSE"). We have received "in-principle" approval from RSE for listing the Equity Shares arising from the Issue yide their letters dated May 16, 2019. For the purposes of the Issue, the Designated Stock Exchange is BSE. DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the submission of the letter of offer to SEBI should not in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved by SEBI. Investors

are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI" on page 186 of the Letter of Offer. DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or

approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer, Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of the BSE" on page 189 of the Letter of Offer BANKER TO THE ISSUE/ESCROW COLLECTION BANK: HDFC Bank Limited; FIG-ops Department-Lodha, I Think Techno Campus, 0-3 Level, Kanjurmarg, Mumbai 400 042

PLEASE REFER TO THE REVERSE OF THE CAF FOR THE DETAILS OF THE ESCROW COLLECTION BANK AND ITS COLLECTION CENTRES.

INVESTORS ARE ADVISED TO REFER THE LETTER OF OFFER AND ABRIDGED LETTER OF OFFER. AND THE RISK FACTORS CONTAINED THEREIN BEFORE APPLYING IN THE ISSUE AVAILABILITY OF THE LETTER OF OFFER: The Letter of Offer is available on the website of the Lead Manager to the Issue, i.e. www.indianivesh.in and the website of the stock exchange where the Equity Shares are listed

.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on SEBI's website at www.sebi.gov.in and a copy of the same can be download from these websites **REGISTRAR TO THE ISSUE**

LEAD MANAGER TO THE ISSUE



IndiaNivesh Corporate Finance Private Limited

1706. 17th Floor, Lodha Supremus, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400013 Tel: +91-22- 62406240 Fax: +91-22- 62046241

E-mail: icfpl@indianivesh.in Website: www.indianivesh.in Contact Person: Mr. Jinesh Doshi CIN No.: U67190MH2016PTC287247 SEBI Registration No.: INM000012403

LINKIntime

LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED

C 101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S.Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083. **Tel:** +91 22 49186200 Fax: +91 22 49186195

Email: pacific.rights@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Investor grievance email: pacific.rights@linkintime.co.in

Contact Person: Mr. Sumeet Deshpande CIN No.: U67190MH1999PTC118368 SEBI Registration Number: INR000004058

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Mr. Sachin Shah

Place: Udaipur

Village Sapetia, Brahmano Ka Guda, Bedla Udaipur 313004, Rajasthan Tel: No 0294-2440196; E-mail: companysecretary@pacificindustriesItd.com

nvestors may contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and Compliance Officer for any Pre-Issue/Post-Issue

related matters such as non- receipt of letter of Allotment, credit of Rights Equity Shares or Refund Orders and such other matters.

All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application was submitted by the ASBA Investors.

For PACIFIC INDUSTRIES LIMITED

Date: July 30, 2019 **Company Secretary and Compliance Officer** PACIFIC INDUSTRIES LIMITED The Company is proposing, subject to market conditions and other considerations, a rights issue of its equity shares and has filed a Letter of Offer with Securities and Exchange Board of India and the Stock Exchanges. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at <u>www.sebi.gov.in</u> and the website of the Lead Manager to the Issue at <u>www.indianivesh.in</u> and the website of the stock exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE Limited www.bseindia.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the section entitled "Risk Factors" on page 16 of the Letter of Offer for details of the same. The securities offered via the Letter of Offer are not being offered to investors outside of India and recipients of the Letter of Offer should refer to the offering restrictions noted therein.